



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 अग्रहायण 1933 (श0)
(सं0 पटना 750) पटना, शुक्रवार, 16 दिसम्बर 2011

सं0 3ए-2-वे.पु.-16 / 2009—11382-वि0(2)
वित्त विभाग

प्रेषक

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार,
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

विषय :- वेतनमान संशोधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, सैनिक कल्याण निदेशालय, गृह विभाग के लिए दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प सं. 660, दिनांक 08 फरवरी 1999 के द्वारा वेतनमान रु0 3050-4590 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृति फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दी गई थी।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा की त्रुटियों पर विचार करने हेतु गठित फिटमेंट अपीलीय समिति द्वारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजर पद के लिए रु0 3200-4900 के वेतनमान की अनुशंसा की गई। पुनः माननीय उच्च न्यायालय में दायर की CWJC No. 3126/2000 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2011 को फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण एवं लाभादि के भुगतान का आदेश पारित किया गया है।

उक्त के आलोक में वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण संशोधन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक विचारोपरांत वेतनमान रु0 3050-4590 को संशोधित करते हुए दिनांक 01 जनवरी 1996 के प्रभाव से वेलफेयर आर्गेनाइजर के लिए वेतनमान रु0 3200-4900 की स्वीकृति दी जाती है जिसका आर्थिक लाभ दिनांक 31 दिसम्बर 2005 तक अनुमान्य नहीं होगा। दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से इस वेतनमान का पुनरीक्षित वेतनमान PB-1+2000 अनुमान्य होगा। वेतन-निर्धारण की प्रक्रिया संकल्प सं. 630, दिनांक 21 जनवरी 2010 के आलोक में अपनाई जाएगी।

विश्वासभाजन,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 750-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>